

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 4 मार्च, 2013 (फाल्गुन 13, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आवास एवं पर्यावरण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं –

(क) क्रमांक एफ-3-131-2012-बत्तीस, दिनांक 30 मई, 2012; तथा

(ख) क्रमांक एफ-3-183-2012-बत्तीस, दिनांक 14 सितम्बर, 2012

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-2012) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम भुण्डहा में राईस मिल की दीवार गिरने से कई मजदूरों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, जिला खरगोन में ओंकारेश्वर परियोजना अन्तर्गत नहरों के निर्माण के सर्वे में बदलाव से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री हरेन्द्रजीत सिंह, 'बब्बू', सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का सोलहवां एवं सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के -

(क) ग्राम पथरिया हाट में हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,

(ख) ग्राम चितौरा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल स्वीकृत किये जाने,

(ग) केरबा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल स्वीकृत किये जाने,

(घ) ग्राम रजौआ में हायर सेकेण्ड्री स्कूल स्वीकृत किये जाने, तथा

(ङ) ग्राम कर्रापुर में कन्या हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,

- (2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के –
(क) ग्राम नरसिंह देवला से ग्राम अहमद तक रोड निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम टिमायची से बीड़पाड़ा तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(ग) ग्राम सोनगढ़ से तलावपाड़ा तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(घ) ग्राम सरदारपुर के सामुदायिक स्वा. केन्द्र में नवजात शिशु गहन परीक्षण केन्द्र स्वीकृत किये जाने,
(ङ) ग्राम आनन्दखेड़ी के तालाब पर पुलिया निर्माण किये जाने, तथा
(च) ग्राम आनन्दखेड़ी में नहर से शाला भवन तक मार्ग निर्माण किये जाने,
- (3) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के-
(क) नावघाट खेड़ी में इन्दौर खण्डवा मार्ग से श्मशान घाट तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम लिम्बी में मंदिर के पास हैण्ड पंप खनन किये जाने,
- (4) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य, सिंगरौली जिले के-
(क) ग्राम अमहरा, मकरोहर, सेमरिया, झांझी खम्हरिया में विद्युतीकरण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम हर्रहवा, हिर्रवाह एवं शाहपुर के हाईस्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (5) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के-
(क) ग्राम गोरइया (पहाड़) के तालाब का विस्तारीकरण किये जाने,
(ख) ग्राम गोरइया के शासकीय हाईस्कूल का उन्नयन किये जाने, तथा
(ग) ग्राम धौखई में नवीन तालाब निर्माण किये जाने,
- (6) श्रीमती रेखा, सदस्य, छतरपुर जिले के –
(क) राजघाट बांध से बीला बांध आने वाली नहर को बकस्वाहा तक बढ़ाये जाने,
(ख) बकस्वाहा की पाईप लाईन बदल कर नई पाईप लाईन डाले जाने,
(ग) ग्राम वमनी, तिगैला से व्हाया बरेठीलिधौरा मार्ग पूर्ण कराये जाने, तथा
(घ) ग्राम कुटोरा के पास गुरुजन घाट पर पुल निर्माण किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः) .

7. वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

निर्धारित
समय

3 घण्टे

- | | | |
|-----|------------------|--|
| (1) | मांग संख्या – 1 | सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन |
| | मांग संख्या – 2 | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय |
| | मांग संख्या – 38 | आयुष |
| | मांग संख्या – 65 | विमानन |
| | मांग संख्या – 48 | नर्मदा घाटी विकास |

3 घण्टे

- | | | |
|-----|------------------|-----------------------------|
| (2) | मांग संख्या – 13 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
| | मांग संख्या – 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा |

1 घण्टा

- | | | |
|-----|------------------|--------------------------------|
| (3) | मांग संख्या – 50 | उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण |
|-----|------------------|--------------------------------|

भोपाल :
दिनांक : 3 मार्च, 2013

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा